

# आढागासाकी ढें रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ढैनर गाइड ~नियढ और शिष्टाचार आपकी सुरक्षा करते हैं~

- आवास के नियढ और शिष्टाचार
- साइकिल के नियढ और शिष्टाचार
- कचरा निपटान के नियढ और शिष्टाचार
- आम जीवन के नियढ और शिष्टाचार
- धूम्रपान करने वालों के लिए
- आपकी रक्षा के लिए

## किसी सढस्या की स्थिति ढें संपर्क करें

विदेशी निवासियों हेतु आढागासाकी सामान्य परामर्श केंद्र  
(आढागासाकी गाईकोकुजिण सोगो सोदान सेंटर)

**स्थान** 1-23-1 हिगाशी नानामात्सुचो, आढागासाकी शहर,  
7वीं ढंजिल, ढध्य इढारत, ढुख्य ढवन

**सढय** सोढवार से शुक्रवार 10:00-12:00, 13:00-16:00

विदेशी ढाषा परामर्शदाता (अंग्रेजी, चीनी, वियतनाढी)

※अन्य ढाषाओं ढें परामर्श उपकरण सहायता से की जाती है।

**TEL** 06-6489-6449

**FAX** 06-6489-6661

**MAIL** ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp

## आवास के नियम और शिष्टाचार

### अपार्टमेंट किराए पर लेने की अवस्था में

- जिस ने अपार्टमेंट किराए पर लिया है सिर्फ वही रह सकता है। वहां कोई और नहीं रह सकता।
- आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को रहने के लिए नहीं दे सकते।
- जब आप स्थानांतरित हों तो कृपया किराए का अनुबंध रद्द कर दें। (बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट याद से)
- गलियारे और सीढ़ियाँ सबका साझा स्थान हैं। अपना सामान वहां मत छोड़ें।

※यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको वहां से निकाला भी जा सकता है।



## कचरा निपटान के लिए नियम और शिष्टाचार

### कचरा निकालते समय


- कृपया ज्वलनशील कचरा, लोहे-शीशी-प्लास्टिक की बोतलें, आदि को उनके प्रकार के अनुसार अलग करके रखें।
- प्रत्येक प्रकार के कचरे के लिए, निपटान का तरीका, सप्ताह का दिन और निपटान का स्थान निर्धारित है।
- कृपया अपना कचरा शहर द्वारा निर्दिष्ट थैले में डालें, "अमागासाकी सिटी नामित थैला"।
- बड़े कचरे (50 सेमी से अधिक) का निपटान करते समय, उसके लिए आपको आवेदन करने और निपटान के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी।



※यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं,

तब अगर आप अपना कूड़ा बाहर डाल भी देते हैं, तो शहर सफाईकर्मी इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी कूड़ा न फेंके। नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंड हो सकता है।

अमागासाकी शहर की वेबसाइट पर कचरे के निपटान के बारे में विस्तृत नियम समझाए गए हैं।



## धूम्रपान करने वालों के लिए

- चलते समय या साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते समय धूम्रपान निषेध है।
- अपनी सिगरेट को सड़क पर न फेंके। एक पोर्टेबल ऐशट्रे का प्रयोग करें।

※धूम्रपान करते समय यह सुनिश्चित कर लें की आपके आस-पास कोई न हों। दूसरे लोगों को तंबाकू के धुएँ के संपर्क में न आने दें।



## साइकिल के नियम और शिष्टाचार

- अपनी साइकिल को साइकिल पार्किंग स्थान में पार्क करें। यदि आप इसे साइकिल पार्किंग के अलावा कहीं और पार्क करते हैं तो साइकिल हटा दिया जाएगा।
- साइकिल पार्क करते समय, साइकिल को अवश्य लॉक करें।
- ट्रैफिक लाइट और स्टॉप का पालन करें।
- शराब पीकर साइकिल न चलायें।
- अंधेरा होने पर अपनी साइकिल की लाइट जला लें।
- साइकिल चलाते समय सड़क के बाईं ओर चलें। फुटपाथ पर चलते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें।
- साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनें।



## आम जीवन के नियम और शिष्टाचार

- ज्यादा शोर न करे।
- तेज़ संगीत न बजाएं। (रात के समय विशेष ध्यान रखें।)

※इससे दूसरे लोगों को परेशानी होगी।  
※पुलिस आकर आपको चेतावनी दे सकती है।

- जब आप बाहर जाएं तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां जरूर बंद कर लें।
- जब आप घर पर हों तब भी दरवाजा बंद रखें।

※यदि आप दरवाजा बंद नहीं करते हैं, तो आपको किसी अपराध का सामना करना पड़ सकता है।




## आपकी रक्षा के लिए

### व्यक्तिगत जानकारी लीक करने से सावधान रहें

- अपना निवास कार्ड या स्वास्थ्य बीमा कार्ड किसी को देना या लेना मना है।
- अपना बैंक खाता किसी और को न दें। नहीं बेचे।
- शोशल मिडिया पर व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट न करें।


※इससे आपको अपराध का सामना करना पड़ सकता है। और, आपको दंडित भी किया जा सकता है।



### कहीं आप भुगतान करना भूल तो नहीं रहें?

- अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, राष्ट्रीय पेंशन प्रीमियम और करों का समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

※यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तब एक अरिक्त शुल्क और देर से भुगतान शुल्क लिया जाएगा। आपका पैसा और सामान ले लिया जाएगा। हो सकता है आप जापान में ठहरने की अवधि को अपडेट नहीं करा पाएं।



### नया काम शुरू करते समय सावधानियां।

- काम के घंटे, वेतन, नौकरी विवरण आदि की जांच कर लें।
- नियम के अनुसार, "छात्र" या "आश्रित व्यक्ति (Dependent Visa)" सप्ताह में 28 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता।

※उल्लंघन के परिणामस्वरूप निर्वासन हो सकता है।

